



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 515]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 26, 2007/अग्रहायण 5, 1929

No. 515]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 26, 2007/AGRAHAYANA 5, 1929

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2007

सा.का.नि. 730(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955-(1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश, 2000 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) संशोधन आदेश, 2007 है।
 - (2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
 2. द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश, 2000 में—
- (क) अनुसूची 2 में,—
- (i) “(भाग 2) 1992” कोष्ठकों, शब्द और अंकों के स्थान पर, “(भाग 1)” कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे;
 - (ii) टिप्पण 1 में, “भाग 2” शब्द और अंक का लोप किया जाएगा;
- (ख) अनुसूची 3 में,—
- (i) खंड (ख) में, “भाग 2” शब्द और अंक का लोप किया जाएगा;
 - (ii) खंड (ग) में, “से भिन्न” शब्द का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. पी-17011/04/2007 मार्केटिंग (खंड-II)]

डी. एन. नरसिम्हा राजु, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 487(अ) तारीख 24 मई, 2000 में प्रकाशित किया गया था और पश्चात्पूर्ती संशोधन सा.का.नि. 177(अ) तारीख 8 मार्च, 2002 द्वारा किया गया था।

4773 GI/2007

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2007

G.S.R. 730(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following amendments to the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000, namely :—

1. (1) This Order may be called the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Amendment Order, 2007.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
 2. In the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000,—
- (a) In Schedule II,—
- (i) for the brackets, word and figures “(Part II) 1992” the brackets, word and figures “(Part I)” shall be substituted;
 - (ii) In Note 1, the word and figures “Part II” shall be omitted;
- (b) In Schedule III,—
- (i) in clause (b), the word and figures “Part II” shall be omitted;
 - (ii) in clause (c), the words “other than” shall be omitted.

[F.No.P-17011/04/2007-Mkt. (Vol. II)]

D. N. NARASIMHA RAJU, Jt. Secy.

Note.—The principal order was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), Extraordinary vide number G.S.R. 487(E) dated the 24th May, 2000 and subsequently amended on G.S.R. 177(E) dated the 8th March, 2002.